



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256231  
CG-DL-E-09082024-256231

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2024/श्रावण 18, 1946

No. 450]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2024/SHRAVANA 18, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 489(अ).—केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (जांच करना और अपील) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम, 1986 की धारा 30क के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अपीलार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है और अधिनियम की धारा 30 क की उपधारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है;

(घ) "अपील प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 30 क की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में हैं;

**3. जांच करना -** (1) अधिनियम की धारा 30 क के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट न्यायनिर्णायक अधिकारी, इसमें किसी धारा के किसी के उल्लंघन को उपदर्शित करने वाली उपबंध प्ररूप 1 शिकायत प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति को में सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि जो सूचना विनिर्दिष्ट की जाए (जो सूचना की तारीख की तारीख से सात दिन से कम नहीं होगी) के भीतर कारण बताए कि उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।

- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में की गई कथित उल्लंघन की प्रकृति उपदर्शित की जाएगी।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शित किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह सूचना जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, ऐसी तारीख को, जो सूचना में नियत की जाए, उपस्थित होने की अपेक्षा होगी।
- (4) नियत तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी, उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन तथा अधिनियम के उस उपबंध के बारे में बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन किया जाना अभिकथित है।
- (5) न्यायनिर्णायक अधिकारी, तब, ऐसे व्यक्ति को प्ररूप 2II के अधीन ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को आगे की तारीख (जो पंद्रह दिन के बाद नहीं) के लिए स्थगित किया जा सकेगा और कोई भी स्थगन तीन बार से अधिक नहीं दिया जाएगा और ऐसा साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) इन नियमों के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है और उसे बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच के विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो।
- (7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, अपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकेगा।
- (8) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति कर सकेगा जो वह उचित समझे।
- (9) उप नियम (8) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है तथा उसमें शास्ति अधिरोपित करने के कारण भी अंतर्विष्ट होंगे।
- (10) उपनियम (8) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित होगा।
- (11) इस नियम के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति तथा कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां उस व्यक्ति को दी

जाएंगी जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।

- (12) न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जांच की गई थी सूचना जारी करने की पहली तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा, ।
- (13) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या आदेश उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की गई है, निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जाएगा, अर्थात:-
- (i) उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंपकर या निविदा देकर; या
  - (ii) उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर, जहां वह कारबार करता था या अंतिम बार किया था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम किया था या अंतिम बार काम करता है या
  - (iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से तामील नहीं की जा सकती है, तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने अंतिम बार निवास किया था या व्यवसाय किया था या व्यक्तिगत रूप से काम करता है या लाभ के लिए काम किया है।

**4.अपील.** — (1) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति प्ररूप 3 में अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

- (2) अपील आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी के पास फाईल की जाएगी:
- परंतु अपील प्राधिकारी, जहां साठ दिन की ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण दिया गया हो, ऐसे विस्तार के लिए लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों को अपील को स्वीकार कर सकेगा।
- (3) नियम 3 के उपनियम (8) के अधीन जारी अधिकारी के आदेश की प्रति और अपील के आधारों और अधिनियम की सुसंगत धारा जिन तथ्यों के विरुद्ध अपील की गई है उनका स्पष्ट विवरण, अपील के साथ संलग्न किया जाएगा।
- (4) अपील अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से नियुक्त लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाईल की जाएगी।
- (5) डाक द्वारा भेजी गई अपील, उसके प्राप्त होने के दिन ही अपील प्राधिकारी के समक्ष फाईल की गई समझी जाएगी।
- (6) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील में त्रुटि पाई जाती है तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को उस तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर त्रुटियों को सुधारने की अनुज्ञा दे सकेगा, जिस तारीख को उसे त्रुटियों की सूचना दी गई है और यदि अपीलार्थी ऐसी अवधि के भीतर ऐसी त्रुटियों को सुधारने करने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी आदेश द्वारा और लिखित में लेखक किए जाने वाले कारणों से ऐसी अपील को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा और अपीलार्थी को सात दिन की अवधि के भीतर विनिश्चय से अवगत करा सकेगा।
- (7) अपील स्वीकार किए जाने पर, प्राधिकारी अपील की एक प्रति उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है, और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना उत्तर, यदि कोई है, तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर या उक्त सूचना में दिए गए अनुसार फाईल करे।
- (8) सूचना दस्ती से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी।
- (9) प्राधिकारी के समक्ष न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा फाईल उत्तर, आवेदन या लिखित अभ्यावेदन की एक प्रति को तत्काल तामील की जाएगी।

(10) प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जिन्हें वह युक्तियुक्त समझे।

(11) प्राधिकारी अपील स्वीकार होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

5. **समय बढ़ाना** - न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, जहां कार्रवाई करने में देरी या असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण है, इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी अवधि को, उस अवधि तक बढ़ा सकेगा जिसे वह युक्तियुक्त समझता है।

6. **आदेश और शास्तियां-** (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित होगा तथा सभी पक्षकारों को सूचित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी राशियां भारत की समेकित निधि में जमा की जाएंगी।

### प्ररूप 1

#### कारण बताओ नोटिस

[ नियम 3 का उपनियम (1) देखें ]

सेवा में,

-----  
-----  
-----

#### कारण बताओ नोटिस

**विषय: मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 का उल्लंघन।**

महोदय/महोदया,

तारीख \_\_\_\_\_ को प्राप्त शिकायत (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा ..... के अधीन ..... पर एक उल्लंघन किया गया।

2. उपरोक्त उल्लंघन शास्ति के लिए दायी है। अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इस सूचना की तामील के ----- दिन की अवधि के भीतर यह कारण बताए कि आपके विरुद्ध मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 30क के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए जांच क्यों न शुरू की जाए। यदि दी गई अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

तारीख और स्थान.....

## प्ररूप 2

उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करना

[नियम 3 का उपनियम (5) देखें]

सेवा में,

.....

.....

.....

1. मैं/ हम, .....

.....

..... तारीख ----- के

कारण बताओ सूचना के संदर्भ में एक विवरण देता हूँ/देते हैं।

.....

.....

2. डाक सूची संख्या/कोड और राज्य, मोबाइल नंबर और ई-मेल सहित पूरा पता।

3. उल्लंघनकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

4. हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम के साथ मोबाइल नंबर

**प्ररूप 3**  
**अपील**  
**[नियम 4 का उपनियम (1) देखें]**

सेवा में,

अपील प्राधिकारी,

.....  
.....  
.....

1. अपीलार्थी का विवरण:

(i) नाम :

(ii) पत्राचार का पता:

(iii) संपर्क नंबर:

(iv) ईमेल :

2. अपील के आधार:

(न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न करें)

3. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की तारीख:

4. तथ्यों का विवरण:

मैं/हम ....., अपीलार्थी घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

5. अपीलार्थी के हस्ताक्षर और तारीख:

6. अपीलार्थी का नाम:

[फा. सं. के-58013/8/2023- बागान (सम.)]

अमरदीप सिंह भाटिया, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2024

**G.S.R. 489(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Spices Board (Holding Inquiry and Appeal) Rules, 2024.

(2) The rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986);
- (b) “adjudication officer” means an officer as appointed as such under section 30A of the Act, 1986;
- (c) “appellant” means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section section (2) of section 30 A of the Act;
- (d) “appellate authority” means the appellate authority referred to under sub-section (2) of section 30 A of the Act;
- (e) “Form” means a form appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act;

**3. Holding of inquiry.** — (1) For the purpose of adjudication of penalties under section 30A of the Act, the adjudicating officer shall, on receipt of a complaint indicating contravention of any provision of any section specified therein, issue a notice in Form-I to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

- (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
- (3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
- (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.
- (5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-II as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date (not later than fifteen days and)no adjournment shall be granted more than three times and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
- (6) While holding an inquiry under these rules, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
- (7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
- (8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.
- (9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

- (10) Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.
- (11) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied to the person against whom the inquiry was held.
- (12) The adjudicating officer shall complete the proceeding within one hundred eighty days from the first date of issuance of the notice to the person against whom the inquiry was held.
- (13) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner namely:-
  - (i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
  - (ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
  - (iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

**4. Appeal.** — (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority in Form-III.

- (2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of sixty days from the date of the order:
 

Provided that, the appellate authority may, where sufficient cause for not preferring the appeal within such period of sixty days is given, he may admit the appeal and for reasons to be recorded in writing for such extension.
- (3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer issued under sub-rule (8) of rule 3 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.
- (4) The appeal shall be filed by the appellant in person or by his duly authorised representative in writing duly appointed in this behalf, or by registered post or speed post or through electronic means.
- (5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.
- (6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate authority may allow the appellant, to rectify the defects within fifteen days from the date on which the defect has been intimated to him and if the appellant fails to rectify such defects within such period, the appellate authority may by order and reasons to be recorded in writing, refuse to register such appeal and communicate decision to the appellant within a period of seven days thereof.
- (7) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal upon the person against whom the appeal is sought require him to file his reply thereto, within a period, not exceeding thirty days, or as provided in the said notice.
- (8) The notice may be served by hand or by registered post or speed post or through electronic means.
- (9) A copy of the reply, application or written representation filed by the adjudicating officer before the appellate authority shall be forthwith served on the appellant.
- (10) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.
- (11) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of admission of appeal.

**5.Extension of time.** — The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable

**6.Order and penalties.** — (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

- (2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India .



**Form -I**

**Show cause notice**

[See sub-rule (1) of rule3]

To

-----  
 -----  
 -----

**SHOW CAUSE NOTICE**

**Sub: Contravention of the Spices Board Act, 1986.**

Sir/Madam,

As per complaint received, *vide* dated \_\_\_\_\_(copy enclosed), a contravention has been committed under section ----- of the Spices Board Act, 1986 at .....

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ----- days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 30 A of the Spices Board Act, 1986 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, necessary action shall be taken under the Act .

Adjudicating officer

Date and place.....

**FORM-II****Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener****[See sub-rule (5) of rule3]**

To

.....  
 .....  
 .....

1. I/We, .....

.....  
 .....

hereby give a statement in reference to the show cause notice dated .....

.....  
 .....

2. Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail.
3. Signature of the contravener or his authorised representative:
4. Name of the person along with mobile number who has signed

**FORM-III****Appeal****[See sub-rule (1) of rule4]**

To

Appellate Authority,

.....  
 .....  
 .....

1. Particular of appellant:
  - (i) Name:
  - (ii) Address for correspondence:
  - (iii) Contact No:
  - (iv) Email:
2. Grounds of appeal:  
(A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)
3. Date of order of the adjudicating officer:
4. Statement of facts:

I/We....., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5. Signature of appellant and date:
6. Name of appellant:

[F. No. K-58013/8/2023-PLANT(COORD)]  
 AMARDEEP SINGH BHATIA, Addl. Secy.